



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 543 राँची, मंगलवार, 18 जून, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

10 जून, 2019

संख्या-4/स.भू. राँची (कैंन्सर केयर यू०)-114/17-2051/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-28.05.19 में मद संख्या-11 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिलांतर्गत कांके अंचल के मौजा-कदमा के थाना सं०-155, खाता सं०-55, प्लॉट संख्या-580 का कुल रकबा-23.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी०पी०पी० के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना हेतु एस०पी०भी-1 के साथ 1/- रुपये के टोकन राशि पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों की लीज बंदोबस्ती करने, 30 वर्षों के पश्चात् भूमि के लीज का नवीकरण टोकन राशि पर करने तथा लीज बंदोबस्ती को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से मुक्त रखने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी खार्तों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात ही भूमि के लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा एकरारनामा सम्पन्न करने के 12 माह के अन्दर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
- iii. इस कैंसर केयर सेन्टर में 50 प्रतिशत शैया झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेगी। BPL रोगियों के अलावे वैसे रोगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के बीमा योजना या लोक स्वास्थ्य योजना से आच्छादित हैं, उन्हें ऐसी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।

अनु०-यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव
